

सं. के-15016/61/2015-एससी-1

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12 नवम्बर, 2015

### कार्यालय जापन

विषय:-स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीएम) टेम्पलेट

स्मार्ट सिटी चैलेंज का चरण-1 पूरा होने के बाद, राज्यों/शहरी स्थानीय संगठनों को प्रतिस्पर्धा के चरण-2 हेतु तैयारी करनी होगी। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के दिशा-निर्देशों के पैरा 9.1.2 के अनुसार, 100 संभावित स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीएम) तैयार करने होंगे। इसके अलावा, एससीपी की एक समिति द्वारा निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मूल्यांकन मानदंडों (अनुबंध 4) पर आकलन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, संगठनों और संस्थाओं का पैनल होगा (पैरा 9.1.3)

2. मूल्यांकन की प्रक्रिया को खुला, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए, एससीपी के लिए टेम्पलेट तैयार किया गया और 26 जून, 2015 को अचानक शुरू किए गए सत्र में इस पर चर्चा की गई जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों, शहरी स्थानीय संगठनों (यूएलबी), शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अनुसंधान संस्थानों सहित 150 से अधिक हितधारक शामिल थे। पुनः स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के प्रारूप/टेम्पलेट पर 3, 7 और 12 सितंबर, 2015 क्रमशः दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में आयोजित प्रादेशिक कार्यशालाओं में राज्यों/शहरों के साथ विस्तृत चर्चा की गई जिनमें स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के प्रारूप पर व्यापक विचार-विमर्श और अभिमतों के आदान-प्रदान के लिए प्रधान सचिवों, मेयरों और नगर निगम आयुक्तों को आमंत्रित किया गया था।

3. आइडिया शिविर में प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के टेम्पलेट पर चर्चा करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधान सचिवों और चयनित शहरों के नगर निगम आयुक्तों के साथ 3 नवंबर, 2015 को पुनः बैठक आयोजित की गई थी।

4. अब शहरी विकास मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा के चरण-2 में प्रस्तुत करने के लिए एससीपी तैयार करने हेतु राज्यों/शहरी स्थानीय संगठनों के उपयोग के लिए स्कोरिंग मानकों सहित मानकीकृत टेम्पलेट तैयार किया है। एससीपी टेम्पलेट के छायाप्रति संलग्न है और यह मंत्रालय की वेबसाइट ([www.moud.gov.in](http://www.moud.gov.in)>OMs) पर देखी जा सकती है।

5. अनुरोध है कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सख्त टेम्पलेट के अनुसार तैयार किया जाए और 15 दिसंबर, 2015 से पूर्व प्रस्तुत किया जाए।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार



(मुनीश कुमार गर्ग)

निदेशक (स्मार्ट सिटीज-1)

दूरभाष सं. 23062399

सेवा में,

स्मार्ट सिटीज के सभी प्रमुख सचिव (यूडी/एमए)/नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. आर्थिक सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. अवर सचिव (एससी-II), स्मार्ट सिटी मिशन की वेबसाइट पर उपरनिर्दिष्ट अपलोड करने पर कार्रवाई के लिए